

[SHRI RAGHUNATHA REDDY]

theless, some of the allegations which he sought to make are strongly denied.

SHRI G. VISWANATHAN : Is he denying Shrimati Lakshmi Raghu Ramaiah ?

MR. SPEAKER : Let him consult her first and then say.

12.45 hrs.

### RE QUESTION OF PRIVILEGE

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara) : What about my motion of privilege, Sir ?

MR. SPEAKER : I wish you could see this letter from Shri Madhu Limaye that I have received in response to your privilege motion.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : I have not been given a copy

MR. SPEAKER : That was in Hindi and I got it translated into English.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, कल इन्होंने कहा था कि हम इनका उठावेंगे। हम लिये सब पढ़ने की इजाजत दें, मैं अपने जवाब को पढ़ना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय अगर आप सदन में पढ़ना चाहते हैं तो वह भी बड़ ने। आप ने मुझे कहा था कि आप मुझे लिख कर भेज दें, मेरे पास अभी 10 मिनिट हुए थाया था, मैं हाउस में बैठा था, हम लिये उस पर काब नहीं कर सकता था। हम का बोझा बहुत रलिय देखा है, आप ने भी हम को इसर उबर जाना है।

श्री मधु लिमये अगर यत्र सदन के मामल न जाना मैं समल जान दी।

MR. SPEAKER : He does not understand Hindi. So I got it translated into English.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandi-wash) : He must be given a copy of it.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : Yes.

श्री मधु लिमये : उहोंने सदन में कबो उठाया, हम लिये सब मैं सदन में बीलूया।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : A clear-cut charge has been made. He has to say whether it is correct or not. He should not be allowed to use this forum for any other purpose.

MR. SPEAKER : Do you want to see the reply in advance ?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : It is not necessary; it is for you to decide

श्री मधु लिमये यह मामला सदन के सामने उठा है, अध्यक्ष ने छपा है, हम लिये मुझे भी जबाब देने का मौका मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय कल उनको मैंने कुछ कहने कहा दिया। आप ने कहा था कि मैं जबाब भेजगा। अगर उन्नीकरण जी अभी उठना चाहत है तो उठाय।

SHRI SHIVWANATH PRATAP SINGH (Phulpur) : On a point of order. When a member has been requested to confirm whether a report is correct or not, is he entitled to give a long explanation before saying 'yes or no'?

SHRI MADHU LIMAYE : Who are you to prevent me ?

SHRI SHIVWANATH PRATAP SINGH : We only want to know whether the statement is correct or not. That is the only question. There is no need for a long explanatory statement.

श्री प्रदल बिहारी शिवशेखी (प्यामियर) : अध्यक्ष जी, हम के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप दोनों सदस्यों को मौका दे कि वे अपनी बात सदन में कहें। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि श्री मधु लिमये जो वा

जबाब अभी अभी दिया है, इस लिये आप इस जबाब का उन के पास भेज दें और फिर आप निर्णय करें कि यह सभामुख प्रिविलेज का मामला है या नहीं है। यदि है तो मदन में नार्ने दे, अन्यथा रद्द कर दें।

श्री मधु लिमये : मुँक सदन में यह बात आ गई है, सारे सभसभानों में छर चुकी है कि मेरे क्लिनाक विरोधाधिकार का मवाल है, इस लिये मुझे मफार्ड देने का मौका मिलना चाहिये।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Bengal) : May I make a submission ?

SHRI C. M. STEPHEN (Muvattupuzha) : On a point of order on a procedural matter.

MR. SPEAKER : I will take your advice later. Shri Madhu Limaye has sent this reply about ten minutes ago.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : I have to place before you evidence also. There is a campaign of calumny that he is carrying on outside this House. We cannot permit this to go on.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : What is wrong in that?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : It is a systematic campaign. If he wants to reply, he can.

श्री मधु लिमये : Who are you to say 'I won't permit you'?

श्री श्री आपने बिक न्यायालय को मन्म किया है, मविधान को कर्म नहीं किया है।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : Sir, the *Indian Express*, Bombay edition, dated 30th April, 1973, reports a speech in which new Member from Banka constituency, Shri Madhu Limaye, is purported to have made a speech in Chowpathy, Bombay, on 29-4-1973. Besides asking the people to loot grain shops, he is reported as having said that the Prime Minister had a ring of goondas among the Members of Parlia-

ment who shouted down the Opposition Members whenever they rose to speak. This happens even when the Prime Minister herself remains present in the House ; that is, the Leader of the House.

Here is a *prima facie* case of gross contempt of the House and breach of privilege of the House and its Members. Here is an attempt to bring the House into ridicule, to bring Parliamentary institutions into ridicule, and an attempt to intimidate the Members including the Leader of the House. Hence it is an attempt to undermine the power and prestige of Parliament which constitutes a very grave contempt.

That is why, I along with four other Members of this House, approached you under rule 222, and you were kind enough to allow me to raise it. I am waiting for the reply, but I must also, since I have got the opportunity today, tell you that this is not the only opportunity that he has used to carry on the campaign of calumny against the House. Yesterday, in his reply to you, he had the audacity to ask you to make us withdraw the question. You see this is the manner and the method of functioning which he has been systematically carrying on in the last House and now he has brought it again to this House. Otherwise, he has threatened to come out with Maruti. We are not afraid of it.

SHRI MADHU LIMAYE : I did not know that the hon. Member was involved in Maruti. How are you concerned with it?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : You know I am referring to the reply you have given yesterday.

SHRI MADHU LIMAYE : How are you concerned with Maruti?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : So, Sir, it is an insult to you and to the House to suggest that you can act as a post-office. That it was deliberate is clear from the subsequent statement in the House. Yesterday he said, ठीक है, जबाब मिल जयेगा। केवल इतना ही नहीं कहूँगा बल्कि सारी बात कहूँगा

[Shri K. P. Unnikrishnan]

Whom is he trying to threaten ? वह कौसी  
बातें क्या हैं ?

We will see now. Now, in an interview to the press in Poona on 29-4-1973, he is reported to have said—I quote from *Tarun Bharat*, Poona, dated 30-4-1973, page 8, column 7,—that Parliament is in the hands of goondas. I have a certified extract of the translation.

AN HON. MEMBER : Who has certified ?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : Two Members ; Mr. Sathe and Barrister Gadgil of the Rajya Sabha.

SHRI VASANT SATHE (Akola) : I shall read it. (*Interruptions*)

SHRI DINEN BBHATTACHARYYA (Strampore) : It is not permissible. (*Interruptions*)

SHRI VASANT SATHE : It is in Marathi, and I am only assisting him in reading the Marathi.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Sir, on a point of order. In a letter that has been addressed to the hon. Member he has raised a privilege issue relating to a specific speech delivered in Bombay. Now, he is referring to an interview at Poona. He is not permitted to do it.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : I am giving additional evidence, which is permissible.

AN HON. MEMBER : Is this a criminal court or what ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। मैं प्रोसीजर का मामला उठाना चाहता हूँ। जब प्रधान मंत्री जी ने विरोधी दलों को गद्दर कहा था और हमने यह मामला सदन में उठाने की कोशिश की थी तो आपने कहा था कि जो भाषण सदन के बाहर दिए जाते हैं उनके बारे में प्रिविलेज माँगना नहीं जा सकता।

(व्यवधान) क्या प्रपोजीशन पार्टीज पार्लियामेंट में नहीं बैठती है ?

अध्यक्ष महोदय : पार्लियामेंट में बाहर जो कहती है वह बाहर कहे लेकिन जब नाम लेकर सदन के सम्बर को कहा जाता है तो फिर वह हाउस में आता है। प्रधान मंत्री ने नाम नहीं लिया था। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह पता नहीं लगता कि कौन प्रपोजीशन में है ?

MR. SPEAKER : It is not a question of one against the other ; it is not a question like that. He has mentioned the word 'goonda'.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गद्दर तो गृह से भी ज्यादा खराब है। गद्दर कहना तो हेटर कहना हुआ।

MR. SPEAKER : Whatever has happened outside without bringing in Members of Parliament or this House, but only parties, you use the language on the platform, not specifically mentioning this House.

श्री मधु लिमये : यह कौन सा प्रोसीजर है ? आप मुझे कहने दीजिए पहले। (व्यवधान)

MR. SPEAKER : He has raised a point of order. I would like to tell Mr. Madhu Limaye that it is not a question of one against the other. Sometimes after the elections, the heat does not go for many weeks. I have personal experience of it ; I had it in 1962. Do not try to interpret this word in a meeting in a particular manner. It is the word ; the meaning is the same. If in the heat of the moment it was said, I would be happy if you say well, it was said in the heat of the moment.

PROF. MODHU DANDAVATE : I had raised a point of order ; you have not given your ruling. The hon. Member had raised a privilege issue which is related to a specific speech delivered in Bombay but is now bringing in additional press interviews given at Poona. He is mixing up issues ; it is an extraneous matter.

**MR. SPEAKER :** He has said further also ; he is entitled to mention in his speech.

13.00 hrs.

**SHRI SHYAMNANDAN MISHRA :** My point of order is this. When some hon. Members wanted to raise the question of privilege against the Prime Minister on the basis of some of her utterances outside the House, you did not allow those Members to make the complaint fully.

**SHRI VASANT SATHE :** They were not related to this House.

**MR. SPEAKER :** Will you please sit down ?

**SHRI VASANT SATHE :** You can abuse our party. Don't refer that in this House.

**SHRI SHYAMNANDAN MISHRA :** Please hear me. In the same way, anybody can say that you are traitors.

**MR. SPEAKER :** Let me hear Shri Madhu Limaye.

**SHRI SHYAMNANDAN MISHRA :** This is a point of procedure.

**MR. SPEAKER :** That is the same which he has raised.

**SHRI SHYAMNANDAN MISHRA :** My point is that on previous occasions you were not pleased to allow the Members to make the complaint fully. Otherwise, it could have been established that the utterances of the Prime Minister were a clear breach of privilege. It is a right of the Members to make a complaint, and the breach of privilege has to be heard by the House and then a decision taken. You did not allow that on earlier occasions though the Members wanted to establish that the utterances of the Prime Minister were against the Members of Parliament.

**MR. SPEAKER :** When the Prime Minister uttered that on the platform, the reference was made to this House or the Members of the House. It was a party

meeting. In that no specific mention was made about the Members of this House. You must make this distinction. I am not prepared to give my ruling on it. You may say what you want to say on what is said outside. If anybody goes on saying like this in any language against a member on a platform outside, you have an ample opportunity to reply to each other. If that is about this House or its Members, then, of course, it must come inside the House. You may say what you want to say within two minutes.

**SHRI K. P. UNNIKRISHNAN :** May I quote the translated version from the Poona edition of *Tarun Bharati* ? It says :

'Parliament of today has literally become a Parliament of goondas and therefore, the Opposition Parties who are in minority are even denied their rights.'

The Parliament of India has literally become parliament of goondas, this is what was said on the morning of 29th at a place separated by time and distance, that is, the city of Poona. I have every reason to believe that what he said is factually reported. But, still, it is an open question. This systematic campaign against the Members and bringing the House to ridicule has to be stopped. If that is not stopped even if it is committed by a Member of the House or super-Member, as he styles himself, that would be a very sad day for the Parliamentary institutions and the future of the country. Nevertheless, there have been such deliberate attempts to bring the House into ridicule.

So, I would appeal to the House to take due notice of these words. Personally speaking I am very sorry to raise this because here is a man on whom I had pinned great hopes and for a very long time, I was associated with him in the Socialist Party.

**SHRI DINEN BHATTACHARYYA :** You are a turn-coat.

**SHRI K. P. UNNIKRISHNAN :** Therefore, I would appeal to him—what he said

[Shri K. P. Unnikrishnan].

need not be made a matter of privilege—to apologise before the House.

SHRI MADHU LIMAYE : Never.

SHRI K. P. UNNIKRIISHNAN : I am taking your permission to move this Resolution and want leave of the House. . . .

MR. SPEAKER : Not now.

श्री सत्यनाथ कपूर (दिल्ली) : मोक्षन तो पूरे पढ़ेंगे।

श्री मधु लिमये: अध्यक्ष जी अगर इजाजत देंगे तो प्रस्ताव लायेगा।

SHRI K. P. UNNIKRIISHNAN : Against the Editor of the *Indian Express*.

MR. SPEAKER : Let me hear Shri Limaye. Let me listen to him.

SHRI K. P. UNNIKRIISHNAN : I shall reserve my right to move the motion after he says something.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : I raised a point of Order that the privilege motion is about the factual statement in the papers. He should confirm whether it is properly reported or not, that is all.

MR. SPEAKER : This is what I asked yesterday. He said, he wanted to give some explanation. रात कुछ न कुछ कहा जाता है। इन लोगों ने है कि आज का दिन जाति से गुजरना।

श्री मधु लिमये अध्यक्ष महोदय जब मेरे पूनपूर्व भाषी श्री उशीकृष्णन् माहब प्रपना बकतव्य से रहे थे तो उन को मैं ने एक बका भी नहीं टोका। इसलिए मैं श्रादा करना हू कि वह और उन के भाषी भी मूत्र को नहीं टोकेंगे और पूरी बात मेरी और से मुन लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, उशीकृष्णन् माहब ने कहा मेरे भाषी थे। मेरी मजबूत से बड़ी श्रादा यह छोड़ कर क्या गये? भाषक मेरे मजबूत करने से मेन जाना बदला, वाकिफा जमी पकती, इसलिये भाषक छोड़ कर गये हैं, मुझे श्रादा नहीं है।

भाषक, मेरे शिक्षक विवेकानंदरंजण की जी मॉटिंग कुछ कांसेस सब्सों के द्वारा दी गई है उन को मैंने कम सरकारी तौर पर देखा लिया था और आप से कहा था कि यह मॉटिंग बिल्कुल हाइब्रिड है और इस को उन सब्सों को वापस लेना चाहिये। लेकिन बुकि से सबस्य इस को उठाया ही चाहते हैं, मैं अपना ब्रह्म आद के पाल लेख रहा हूँ। इस को मजबूत के सामने रखने की मुझे इजाजत दी जाये।

इन सब्सों का कहना है कि मैंने उन को "गुन्डा" कहा और इस से उनकी और मजबूत की मान हानि हुई है। एक क्षय के लिये मान भी नीजिये कि मैं ने उन को "गुन्डा" कहा, तो मैं जानना चाहता हू कि इस से विशेषाधिकार का मवाल कहा उत्पन्न हुआ है? इन लोगों की नेत्री और भागन की प्रधान मंत्री दिन गन विरोधी दलों की और सदस्यों को गानी दिया करती है, उन को राष्ट्र विरोधी बहानी है, कुछ दना और सदस्यों का बिदेसी एजेंट भी कहती हैं, और इन गानी-गानीज को प्रमाणित करने के लिये साक्षात्वाणी, बिदवाणी आदि का इस्तेमाल करती है। क्या उन ने मजबूत की मानहानि नहीं होती है? मैं जानना चाहता हू कि प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता मवाल से राष्ट्र की गौन गी ऐसी बड़ी सेवा की है कि जिस से उन को दूसरों पर माछन लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। (अपवाक)

श्री कर्ति लूबध (दिल्ली दिल्ली) स्वतंत्रता आन्दोलन में प्रधान मंत्री, उन के पिता और दादा मारे जायिन थे।

अध्यक्ष महोदय वान नीली यह भी कि यह कहते मैं ने कहा है, या नहीं कहा है। उन के भाषक मज्जा बोला भाषक कर कभी प्रधान मंत्री को ला रहे है, कभी किसी को ला रहे है। मैंने उन को इजाजत दी है। इसलिए मुन मेने बीजिये।

श्री मधु लिमये:-प्रधान मंत्री का नाम मैंने ही हकना। (अपवाक)

अध्यक्ष महोदय : आप हर एक को ऐसीय नहीं करिये।

श्री मधु लिमये : एक एक कैंपिटलिस्ट का मामला मैं खोलना हूँ।

क्या इन मदन ने प्रधान मंत्री का नाम लेने पर कोई गेक है? मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता सन्ध्या में राष्ट्र की कीमती ऐसी बड़ी सेवा की है कि—(अध्यक्षान) अध्यक्ष महोदय, मैंने आप को जो निबन्ध कर दिया है, मैं उस को पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। मैं एक वाक्य भी बाहर से नहीं बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप इतना लम्बा-बीड़ा स्टेटमेंट कर रहे हैं। आप प्रधान मंत्री को बीच में ले जायें हैं। आप इर्रैलिबेट बातें कह रहे हैं। आप ने यद् नेटर मुझे अभी-अभी भेजा है। आप ने मुझे उन का देखने का मौका भी नहीं दिया है।

श्री मधु लिमये : क्या इन मदन ने प्रधान मंत्री का नाम लेना जुर्र ही गया?

अध्यक्ष महोदय : नहीं—अगर रेलिबेट हो, तो।

SHRI C. M. STEPHEN : Sir, I rise on a point of order. It is purely a procedural matter. The stage at which we are, I suppose the consideration is whether you have given consent.

MR. SPEAKER : I am listening to Shri Limaye. But I am only requesting him that he should confine himself only to the points.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बार-बार क्यों कह रहे हैं? आप मुझे ही हमेशा कहते हैं। मैं विष्कुल रेलिबेट बातें कह रहा हूँ। अगर आप ने मुझे मदन ने निकालना है, तो निकाल दीजिये। अगर आप चाहते हैं कि मैं बोलूँ, तो साफ़ कह दीजिये। बिना बिना ने मैंने यहाँ कबसे रखा है, तब से आप मुझे क्या रहे हैं। (अध्यक्षान)

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : We cannot be intimated like that.

MR. SPEAKER : I have heard the point of order of Shri Stephen. It was already mentioned by another hon. Member and I had given my ruling on that point of order.

श्री मधु लिमये : माननीय सदस्यों को मान्य नहीं है कि विच्छिनी लोक सभा ने यह अध्यक्ष बनें, इन के लिए हमने भी प्रयास किया था। इसलिए माननीय सदस्य उन को न बचायें।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर। आप मेरा जिन न करें।

श्री मधु लिमये : तो मैं अपने जज्बा को बाधित करना हूँ। हम जो आप से महश्याम करना चाहते हैं।

MR. SPEAKER : I have known Shri Madhu Limaye since the last Lok Sabha. He never interrupted other hon. Members then. He always based his observations on certain facts of procedure. So, kindly listen to what he says. If he is wrong, it can be raised later. One thing about him is that he will never interrupt others. When he gets up, he gets up on solid ground. When he gets up, I am also sometimes put to some difficulty. But we have been tolerating each other and appreciating each other. Where he goes wrong, I tell him. Here the question is about an observation he made where he is supposed to have used the term "goonda". Instead of going into other reasons, this and that, it would be much better if he deals with this particular point.

If in a moment of heat you say like this—taking the cue from you, everywhere we will be mentioned like this outside. If my ruling goes, it is all right. I simply made a request. Kindly accept my request. You may speak.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं एक वाक्य भी फायदू नहीं बोलूँगा। मैंने आप को जो निबन्ध भेजा है, उस को मुन लीजिये।

मे जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता सन्ध्या में राष्ट्र की कीमती ऐसी बड़ी सेवा की है कि जिस से उन को हमसे बर सांछन

[श्री मधु सिन्घे]

लगाने का अधिकार प्राप्त होगा है। हम से उम्पेठ होते हुए भी इनकी संवाह हम से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं है। मेरे जैसे लोग न कई गुना ज्यादा दिन प्रवेशी की जेलों में काटे है, योधा को पुरंवाला तामन से मुक्त करने के लिए यातनायें सही हैं, उन की फौजों प्रशासन से बारह-बारह साल सजा पाई है। फिर भी ये हम लोगों को पाली देनी है और आप इन को नहीं राहने हैं।

पूना और बम्बई में मेरी जो आम सभाये हुई, उन में मैं देर तक बाना और वह प्रवेशी में नहीं, मराठी और हिन्दी में। मराठी के अध्यक्ष मैं देखे हैं। मैं पांच सप्ताह लेकर आया हूँ। अगर आप कहे तो मैं उनसे से पड़ कर मुनाऊ यह प्रिविलेज का प्रश्न मेरी बम्बई की स्पीच के बारे में है। अगर सचल भारत का लेकर पाई नया प्रिविलेज का प्रश्न है, तो उस का बाद में लिया जा सकता है।

उन अध्यक्षाने में जा मुझमा जो उद्गरण प्रवेशी का इन सदस्या न दिया है उस प्रामय का कोई भी वाक्य नहीं है। मैं जा बटा वह नीचे मजरे में दे रहा हूँ -

'मैं साक सभा में प्रवेश करत ही कुछ बायेमी सदस्या में हुस्नदवाजी, गडई और पृईई शुरू कर दी है। उम्हान कीमना किया है कि वे मुझे बालन नहीं देगे। कुछ लोग यह अध्यक्षवाजी प्रधान सजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं और कुछ लोग तो यह काम उन्ही के इशारे पर कर रहे हैं। इन्दिरा जो मन रही हैं कि वे केवल अपन दल की ही नेत्री नहीं, सदन की भी नेत्री है। सदन की नेत्री के माने व्यवस्थित बहुत चलन देना, बिराठी सदस्या क अधिकारों की रखा करना, यह अध्यक्ष क बाद उन्ही का दायित्व होगा है। उम्क। वे पुरा नहीं कर रही है। दल उन्की इन पद में त्यागपत्र देना चाहिए।

मुझे बांका-देवघर की जनता ने बधाय संस्कार पर बहुत लगाने के लिए भेजा है और वह काम मैं मुस्लीबी के साथ करूंगा। मैं इस हुस्नदवाजी पृईई और गृईई (गुडो से नहीं) खने वाला नहीं समझ अपने कर्तव्य को तभी पूरा कर सकेंगी, जब वह जनता के कुछ और बर्द का तथा आत्मा और आकांक्षाओं का दर्पण बनेगी। जब जनता की बातों का समझ में कहने का अवसर नहीं मिलेगा, तो भावसा मज्को पर बीरारो पर कारनामों में, खेतों में और बिस्व-विद्यालयों में गय होगा और हिमा प्रतिभाव रूप में बढ़ेगी।"

अध्यक्ष महाशय, मैं यह जा कहा उसने सदन की बीन भी मानहानि हुई है ? क्या स्वयं आप में देना कि जैसे ही मैं आप की आत्मा से बोलने के लिए खडा हुआ जैसे ही हुस्नदवाजी शुरू हो गई। बीच-बीच में टाकना, कुछ सवाल करना, हान्य-विनाश करना उनका मैं पसंद करना हूँ। लेकिन हुस्नदवाजी कर के किसी का बालन ही न देना हमका क्या मननब है ?

कल के अपने आचरण से कांग्रेसी सदस्या न फिर एक बार मानिन किया है कि जब उनके पास कोई नब नहीं है, न कोई ठाम मू है। अपने पालनी बहुतन से बिर्गाधिया का देवाना यह जब उनका एकमात्र लक्ष्य रह गया है।

अध्यक्ष महाशय मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं इनकी महारवाजी से सदन में नहीं आया हूँ। मैं अपने मनदानाओं की इच्छा न यहाँ आया हूँ और उनके आदेशों का मैं पालन करूंगा। अध्यक्ष महाशय, इन लोगों में जरा भी लज्जा हाती तो वे लोग धनमुखी बन कर साबित कि दो लाख बर्दने जिम्मेदारी इनकी वह भारी बहुमत दिया बहो भाग भाज इनकी क्या ठुकरा रहे हैं ? लेकिन आत्म-बिस्वलेषण करने क बजाय ये लोग मुझको और आप को इगने प्रमत्तन के बचकर हैं हैं।

इन्होंने "इंडियन एक्सप्रेस" के सम्पादक और सनासदाता के खिलाफ भी मोटिव दे दिया है। इन लोग का हर दिन सदन में जो आचरण है

उसको देखाते हुए मुझे लगता है कि हुस्नइबाबी और मुई की जगह पर यदि इन प्रश्नकार के संवाचकाना में "हुस्नइबाबी" या "गुदा" शब्द का प्रयोग किया है तो कोई बहुत बुरा काम नहीं किया है। जित्त राफुओही शब्द का प्रधान अंगी इन्तेमान करती है वह तो इससे भी बुरा है। मराठी में "गुदा" शब्द का अर्थ इतना बुरा नहीं है, एक कवि कहते हैं :

"पुत्र अन्नादा ऐसा गुदा,  
अन्नादा लिन्ही मोकी शंदा।"

डा० राम मनोहर लोहिया नेरे लुके को भी गलत कहा करने थे। इसलिए इन कांशियियों को नडा कह कर "इंडियन गजनेस" ने सम्मान के उनका सम्मान ही किया है।

अध्यक्ष महोदय अब देखिये, मैंने यह हम क्याल से कहा कि उन्होंने जो कहा है उसी जान पर रहेंगे। लेकिन वह सम्मी-बोडी बातों में बने गए कि मराठी में इसका क्या मतलब होता है (अवधान) — बात सुनिये। हम तो यहा बैठे हुए थे, हम समझने थे हम नहीं जगोफ घादमी है। जिन दिन में आप आए हैं हमें पना लया है कि नहीं, हम जगोफ घादमी नहीं है। यह बड़ी गलत बात है। अगर आप चाहते हैं कि हम इनको इन्तोर करें तो कम से कम यहा से छोड कर क्या जाऊंगा। यह जान ठीक नहीं है।

(अवधान) ... यह कहवधाना बड़ा मुश्किल है। कल कोई इधर से बाहर उठेगा, वह उधर बायो का कह देगा। उधर बासा इधर बासों को कह देगा। यह जान बड़ी गलत है पार्लियामेंट की डिगनिटी के लिए। इसमें कोई जिद की बात नहीं है और इसमें और कोई बात नहीं है पार्टी की या और कोई बात नहीं है। बाहर आपस में पार्टीज के प्लेटफार्म है। लेकिन जब मेम्बर का, हाउस का प्रश्न घाता है तो इसमें आप बोझा सा संकोष करे। मेरी आप से बड़ी जाती रिस्पेक्ट है, मेरा निवेदन है कि आप ने अगर कह दिया है तो इसको कहिए कि ... (अवधान) ...

श्री लक्ष्मण लाले : मैंने मुई और हुस्नइबाबी कहा है। ... (अवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। अगर कोई हाउस में तकरीर होती, हाउस में स्पीच होती तो मे उसको डिप्लो (भी कर सकता था, एक्सपेक्ट कर सकता था। कहा आप ने बाहर, फैसला अन्वर हो रहा है। क्योंकि हाउस के बारे में डिप्लो करने की बात हाउस के रेकार्ड में जाती है। आपने प्रश्नकारों में बात कही। अब आप उनको दोहरा रहे हैं यहाँ। उसके साथ और भी बीस बातें आपने जोड दी ... (अवधान) ...

श्री बलराम साठे : अध्यक्ष महोदय, मुई का मतलब राबरी, लुटेरापन। यह मुई कह करके और बर्न कर रहे हैं उसको।

श्री बहेनर सिंह गिल (फिरोजपुर) : अध्यक्ष महोदय, 29 नवंबर को मैं भी अम्बे में था और बीगाटी में था। जो इन्होंने यहाँ यह बयान दिया बिस्कुल गलत दिया है और यह सब कुछ उन्होंने वहाँ जलने में कहा है कि मुई का गिरोह है (अवधान) ... पार्लियामेंट में अपोजीशन वालों को बोल्ने नहीं देते और कांशेसी मुई एम पी आए हैं पार्लियामेंट में, यह सब कहा है और इतने जंग में इन्होंने वह तकरीर की, इतनी बेसर्मी से की ... (अवधान) ...

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : May I make one submission? After having heard the hon. Member, Shri Madhu Limaye, it is clear that he had used it in the Marathi sense of the word; thereby, he has tried to convey to the House that there was no intention on his part to use it in the non-Marathi sense. To repeat, it is very clear that he wants to convey the impression to the House that he did not use it in the non-Marathi sense of the word. If he had used it in the non-Marathi sense, then there could be serious objection. (Interruptions) In the case of question of privilege, 'intention' should be there. The hon. Member says that he had no intention to use it in the non-Marathi sense of the word. Therefore, there was no intention on his part, and we can take his words that he wanted to convey.



MR. SPEAKER : Let him say that. Ask him to made it clear.

PROF. MADHU DANDAVATE : There is a distinction between liar and lie. Similarly, in Marathi, there is a distinction between Goonda and Goondai.

सभ्यता महोदय यह किम गलत बात को डिफेंड करने में आप लगे हुए हैं ?

श्री शंकर बबाल सिंह (चनरा) सभ्यता महोदय, चन्दाण नाहू भी महाराष्ट्र से आते हैं, वह भी मराठी शब्द के अर्थ जानते हैं, उनमें पूछा जाय ... (अवधान)

सभ्यता महोदय : The common meaning of the word 'goonda' in this country is 'goonda'. We do not go by Maharashtrian interpretation. (Interruptions) देखिये, हम तो जो इस बात को समझते हैं, गुडा शब्द का वह यह है कि जैसा यह समझा गया है और जैसा यह समझा गया है गुडा शब्द, वह गलत है बिल्कुल ।

श्री मधु सिमये : गुडा में बाला नहीं है ।

आप उन के ऊपर कसिग नहीं दे सकत है ।

आप इसके ऊपर एन्वयारी कमीशन बैठाइए ।

SHRI PILOO MODY (Godhra): Whether it is in Marathi, whether it is in Hindi, whether it is in English or Gurmukhi, what language would you use to describe this scene?

MR. SPEAKER : If you like this work, I can use that for you. But, all are gentlemen. I do not think you approve of this word.

SHRI PILOO MODI : I do not approve of it at all. I told you even yesterday.

MR. SPEAKER : I am leaving it to the House.

SHRI PILOO MODY : Some language has to be found to describe this sort of barracking.

MR. SPEAKER : Let the Committee interpret what is Goonda and what is Goondai. I am not here for interpreting the meaning of it. (Interruptions)

PROF. MADHU DANDAVATE : The word attributed to Mr. Madhu Limaye has not been said. There cannot be any Privilege Motion.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शब्द के अर्थ में जाने की जरूरत नहीं है । श्री मधु सिमये ने कहा है कि उन्होंने गुडा शब्द का उपयोग नहीं किया । जो प्रीबिलेज मोशन उनके खिलाफ लाया गया है उसमें यही शिकायत है कि उन्होंने गुडा कहा । सिमये जी कहते हैं कि उन्होंने गुडा नहीं कहा । मामला खत्म हो गया ।

MR. SPEAKER जहां तक लपक गुडा का मदान है . (अवधान)

You say he said it. But the facts are denied. So far as 'goonda' is concerned the facts are denied He denies it I am not allowing this Privilege Motion (Interruptions)

SHRI K P UNNIKRISHNAN He has not denied it.

MR. SPEAKER : He says he did not say and it is wrongly reported How can I say he is wrong? This is also supported by Mr. Mishra, Mr. Vajpayee and others They say he did not say so.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : As far as as 'goonda' is concerned, I shall see what the meaning is just for my information.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : He said that he did not say it. He has completely denied it. He says that he did not use the word 'goonda'.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD (Bhagalpur) : Are we to understand that you have given the ruling that he said

that he had not used the word goonda but 'goondai'. Is it your ruling now that 'goondai' is a parliamentary word?

MR. SPEAKER : So far as the word 'goonda' is concerned, Shri Madhu Limaye has denied it. So far as the word 'goondai' is concerned, I shall have some research work done into it in Marathi and let the hon. Members know what the meaning is.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : He had said that he had not used that word. If he had said that he had said it and he had not withdrawn it, then I would certainly have allowed it.

श्री बल्लभ साठे : 'पार्लियामेंट के सदस्य लोक सभा में बदमाशी करने है।' यदि ऐसा कहा जाय तो क्या आप उसको ठीक समझेंगे। बदमाश और बदमाशी शब्द में क्या फर्क है। इसी तरह से गुण्डा और गुण्डई में क्या फर्क है? आप सदन की गरिमा की रक्षा कर रहे हैं—उसकी बोर्ड तोहीन हो जाय तो क्या आप उसको अच्छा समझेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप न फैमला दे दिया है, इस नियम अब इस पर चर्चा नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : जब वह कहते हैं कि उन्होंने कहा ही नहीं है, तो फिर इस का क्या इलाज है।

श्री बल्लभ साठे : मागे पार्लियामेंट गुण्डई करने वाले लोगों से भरी है इसका क्या मतलब है ? . . . (ब्यवधान) . . .

श्री आपसल झा आकाद जो पल श्री मधु लिमये की ने पढ़ा है, उसमें उन्होंने कहा है— "मैंने गुण्डा नहीं कहा है, गुंडई कहा है।" हिन्दी भाषा में गुण्डा और गुण्डई एक ही शब्दा के दो रूप हैं। उन्होंने जो पल पढ़ा है, उसमें यह स्पष्ट मान लिया है कि उन्होंने "गुण्डई करते हैं" कहा है। ऐसी स्थिति में आप कैसे इस को धोकर रक्त कर सकते हैं, आप इसे त्रिवलज कमेटी को भेज दीजिए। . . . (ब्यवधान) . . .

MR. SPEAKER : May I tell the hon. Member that I have given my ruling only so far as the word 'goonda' is concerned? As for the other word 'goondai' he has already admitted, and I shall see what it means and what the interpretation of it is. (Interruptions)

SHRI C. M. STEPHEN : Kindly permit me to raise a point of order.

MR. SPEAKER : Order, order.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : What for are we in the House?

(Interruptions)

प्रिक्विनेत्र मोगन आप कन्सिडर कर रहे हैं या ब्ल प्राउट करेंगे ?

MR. SPEAKER : आप पहले मेरी बात सुनिये। So far as the word 'goonda' is concerned he denies it. It is gone. जो गुण्डई शब्द है उसका मतलब मैं देखूंगा और उनके बाद मैं बतलाऊंगा।

श्री भगवत झा आजाद : यह कहा जाये वाजपेयी जो गुण्डई करने है तो आप मान लेंगे ? या यह कहा जाये सागे प्रपोजीशन के मेम्बरस गुण्डई करने हैं, यह ठीक है ?

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI (Gauhati) : What about the privilege against the Indian Express?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस समय चर्चा हो रही है प्रिक्विनेत्र मोगन पर। गुंडा शब्द के लिए मधु लिमये जो ने कहा कि मैंने उसका प्रयोग नहीं किया। अब यदि और कोई आपत्तिजनक शब्द वह प्रयोग में लाये हैं तो उसके लिए आरक्षण में मोशन देना चाहिये और पृथक से आप उस पर विचार करें। इस समय जो आपकी क्लिप है उसे मानना होगा। इस समय तो यह आपकी क्लिप को ही चुनौती दे रहे हैं। (ब्यवधान)

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : Whether it is true or not—that is the question.

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं कह रहा हू। (ब्यवधान)

[अवकाश नही देव]

जहाँ तक आपका एतराज या वह गुंडा शब्द पर पर, प्रिविलेज कोमन गुंडा शब्द पर या ।  
(अवकाश) आप सुनते क्यों नहीं है ?

So far as the word 'goonda' is concerned, he has completely denied it. Now the other word that is left is 'goondai'. I have told you a number of times that I am going to examine the meaning of it. If it means 'goonda', you will be allowed.

**SHRI VASANT SATHE :** Then reserve your ruling, examine it and give it on Monday.

**MR. SPEAKER** Shri Dharam Bir Sinha.

13.47 hrs.

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

##### ANNUAL REPORT OF REGISTRAR OF NEWSPAPERS, STATEMENT

**THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI J. B. PATNAIK)** . On behalf of Shri Dharam Bir Sinha. I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Annual Report (Part 1) of the Registrar of Newspapers for India on Press in India. 1972.

(2) A statement (Hindi and English versions) explaining the reasons for not laying the Hindi version of the above Report simultaneously.

[Placed in Library See No. Lt.-4942/73]

##### ANNUAL REPORTS OF GARDEN REACH WORKSHOPS, MAZAGON DOCK, GOA SHIPYARD FOR 1971-72, NOTIFICATION UNDER INDIAN SOLDIERS (LITIGATION) ACT, 1925 AND NAVY (AMDT.) REGULATIONS UNDER NAVY ACT, 1957.

**SHRI J. B. PATNAIK :** I beg to lay on the Table—

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions)

under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(a) Annual Report of the Garden Reach Workshops Limited, Calcutta, for the year 1971-72 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [Placed in Library. See No. LT-4943/73].

(b) Annual Report of the Mazagon Dock Limited, Bombay, for the year 1971-72 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [Placed in Library. See No. LT-4944/73]

(c) Annual Report of the Goa Shipyard Limited, Vasco-da-Gama, Goa, for the year 1971-72 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [Placed in Library. See No. LT-4945].

(2) A copy of Notification No. S.R.O. 77 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 7th April, 1973 issued under section 3 of the Indian Soldiers (Litigation) Act, 1925. [Placed in Library. See No. LT-4946/73]

(3) A copy of the Navy (Prescribed Officers) (Amendment) Regulations, 1973 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.R.O. 80 in Gazette of India dated the 14th April, 1973, under section 185 of the Navy Act, 1957. [Placed in Library. See No. LT-4947/73]

(Interruptions)

**MR. SPEAKER :** As for the meaning of the word 'goondai', I am keeping the decision open so far as 'goondai' is concerned. I have given my ruling on 'goonda'.

##### REVIEW & ANNUAL REPORT OF MYSORE IRON & STEEL LTD. FOR 1971-72.

**THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUBODH HANSDA) :** I beg to